

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

14321 - वुजू तोड़नेवाली चीजें

प्रश्न

अगर मैं अपने कपड़े बदलूँ, तो क्या उसकी वजह से मेरा वुजू टूट जाएगा ? तथा इस प्रावधान में क्या पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई अंतर है ?

विस्तृत उत्तर

वुजू तोड़नेवाली चीजें निम्नलिखित हैं :

1. सबीलैन अर्थात आगे और पीछे के रास्ते से बाहर निकलने वाला (मूत्र, मल, हवा आदि) परंतु महिला की योनि से हवा निकलने से वुजू नहीं टूटता।
2. मूत्र और मल का उनके निकलने के रास्तों के अलावा से बाहर निकलना।
3. बुद्धि का चला जाना। या तो वह पूरी तरह चली जाए, और वह पागलपन की वजह से निर्बुद्धि होना है। अथवा किसी कारण जैसे बेहोशी, नींद, नशा और इसी तरह की अन्य चीजों से एक निश्चित अवधि के लिए बुद्धि का ढाँप लिया जाना।
4. लिंग को छूना, क्योंकि बुस्रा बिनत सफवान की हदीस है कि उन्होंने ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना : (जिसने अपने लिंग को स्पर्श किया उसे वुजू करना चाहिए।) इसे अबू दाऊद (पवित्रता / 154) ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीह सुनन अबू दाऊद (हदीस संख्या: 166) में सहीह कहा है।
5. ऊँट का मांस खाना, क्योंकि जाबिर बिन समुरह की हदीस है कि एक आदमी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा : (क्या हम ऊँट का मांस खाने से वुजू करें ? आप ने कहा : हाँ।) इसे मुस्लिम (मासिक धर्म / 539) ने रिवायत किया है।

इस बात पर चेतावनी देना उचित है कि महिला के शरीर को छूने से वुजू नहीं टूटता, चाहे वह कामुकता के साथ हो या बिना कामुकता के, सिवाय इसके कि इस स्पर्श की वजह से कोई चीज (अर्थात वीर्य वगैरह) निकल आए।

तथा देखें : शैख इब्न उसैमीन की किताब “अश-शर्हुल मुम्ते 1/219-250”.

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

और “फतावा स्थायी समिति 5/264”.